

ANNASAHIB SHINDE): (a) The market prices of indigenous varieties of wheat in the States of Haryana and Punjab only are at present ruling at about Rs. 70-81 per quintal.

(b) The distribution of wheat in Delhi rationed area is statutorily controlled. The Government is not aware of any black market prices of wheat in Delhi. There is no statutory price of wheat in non-rationed area.

(c) There is no such proposal at present.

#### INCENTIVES TO AGRICULTURAL RESEARCH SCHOLARS

\*87. SHRI LILADHAR KOTOKI:  
SHRI SHRI GOPAL SABOO:  
SHRI BENI SHANKER  
SHARMA:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether modern agricultural research scholars have been given any incentives to divert their research to improve the local traditions and methods prevalent in Indian farming;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the other steps which Government have taken to improve the Indian farming?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) With the intensification and strengthening of agricultural research and education under the Five-Year Plans, the base of agricultural research has been considerably broadened, thereby providing appreciable avenues for gainful employment and promotion to agricultural research scientists. In addition, the following incentives are now available to agricultural scientists:—

(1) Better facilities for higher

education and training, both in India and abroad including Scholar-ships and fellowships.

(2) Improved pay-scales. (The scheme has so far been cleared only in part).

(3) Grant of merit promotions and advance increments in deserving cases.

(4) Better equipment, buildings and other working conditions and facilities for research in Research Institutes and Laboratories.

(5) Provision of facilities for contact and discussion with fellow scientists, both in India and abroad.

(6) Re-organisation of scientific institutions giving due place to scientists in administration of scientific research.

(7) Provision for counting of past service rendered in a quasi-Government organisation on permanent absorption in Central Government University and vice-versa.

(c) Since Independence, efforts have been made by the Government to accord the pride of place to agriculture, which had been neglected previously and various steps have been taken, particularly under the Five-Year Plans aimed at improving Indian farming.

The more important steps are:—

(i) Creation of irrigation potential (major, medium and minor) and its more effective utilisation through flood control, drainage and soil conservation measures.

(ii) Intensification and strengthening of research and educational facilities (including setting up of agricultural universities) leading to evolution of high yielding varieties resistant to pests and diseases.

(iii) Provision of Agricultural Extension Services and other programmes of Community Development.

(iv) Multiplication and supply of high yielding varieties of seeds and other agricultural inputs (fertilisers, manures, improved implement and machineries) to agriculturists.

(v) Provision of better plant protection facilities.

(vi) Provision of increased facilities for agricultural credit and better marketing and storage facilities.

(vii) Remunerative prices for agricultural produce.

गन्ने की खेती के लिए भूमि

\* 88. श्री इन्द्रजित महहोत्रा :  
श्री राम सेवक यादव :  
श्री महा राज सिंह भारती :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले अक्टूबर में गन्ने की खेती के क्षेत्र में वृद्धि इन लिये नहीं हुई है क्योंकि गन्ने का सरकारी न्यूनतम मूल्य बहुत कम था।

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी चीनी मिलों में चीने का मूल्य एक जैसे होने के बावजूद गन्ने के मूल्यों में अन्तर लगभग दुगना है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सभी गन्ना उगाने वालों को समान मूल्य मिले इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स.स. कृषि सान्वायक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्डे) : (क) अक्टूबर 1967 में इस मौसम के शुरू से पराई के लिये उपलब्ध गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र गतवर्ष की अपेक्षा कम है इसका मुख्य कारण जनवरी-मार्च, 1967 में बुवाई के समय सूखे की स्थिति का रहना और गन्ने को जाय कुठ अन्य फसलों की बुवाई कम्ता है।

(ख) और (ग) : सभी चीने मिलों के लिये चीने का एक सा मूल्य नहीं है। सरकार ने चीने ज च आयात द्वारा अभिस्तमित प च क्षेत्रों के आश्र पर विनियमित वितरण करने के लिये उत्पादित चीने के 60 प्रतिशत उत्पादन के मूल्य निर्धारित किये हैं। यह चीने कारखानों से अविग्रहण की जाती है। शेष 40 प्रतिशत उत्पादन से कारखानों को खुले बाजार में बेचने के लिये चीने दा जाता है। चीने की आंशिक नियन्त्रण नीति के अज्ञान यह मुनिश्चित करना सम्भवा नहीं है कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने का एक सा मूल्य दिया जाए। चीने कारखाने गन्ने का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से जो अधिक मूल्य देंगे वह गुड़ और खडतारों से प्रतिस्थापित और खुले बाजार में बेची गयी चीने से प्रात मूल्य पर निर्भर करता है।

#### IMPORT OF FOODGRAINS

\*89. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to revise its import targets of foodgrains